

सारणी सं. 5.5 - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार

ग्रामीण

व्यवसाय	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक		
	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
	1	2	3	4	5	6
I. कृषि	38,27,569	22163,28	18759,08	88,53,714	49963,21	43960,15
1. प्रत्यक्ष वित्त	37,89,733	21100,72	17926,55	87,21,307	45623,78	40593,88
2. परोक्ष वित्त	37,836	1062,57	832,53	1,32,407	4339,42	3366,27
II. उद्योग	1,84,396	14537,60	9560,23	2,95,369	42626,28	33468,47
1. खनन तथा उत्खनन	1,584	486,21	395,81	4,288	2374,44	2254,74
2. खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण	8,753	1546,77	1139,43	56,220	3689,06	2597,54
(क) चावल, आटा व दाल मिलें	2,694	490,20	392,50	39,357	1059,23	760,79
(ख) चीनी	75	430,44	270,56	148	905,50	626,12
(ग) खाद्य तेल और वनस्पती	693	87,19	69,01	1,614	137,79	100,79
(घ) चाय अभिसंस्करण	49	9,22	6,33	215	300,73	229,94
(ङ) फलों और वनस्पतियों का अभिसंस्करण	215	44,80	34,60	381	65,21	44,46
(च) अन्य	5,027	484,92	366,43	14,505	1220,59	835,44
3. पेय पदार्थ और तम्बाकू	166	206,65	173,78	454	171,15	141,24
4. वस्त्र	5,356	1156,65	962,36	23,391	3979,95	2991,18
(क) सूती वस्त्र	1,227	659,86	562,08	4,444	2380,21	1810,65
(ख) पटसन और अन्य प्राकृतिक फायबर के वस्त्र	435	25,98	20,60	1,547	45,08	29,64
(ग) हथकरघा वस्त्र और खादी	1,161	37,38	28,42	4,780	109,83	64,35
(घ) अन्य वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	2,533	433,43	351,26	12,620	1444,82	1086,54
5. कागज, कागज उत्पाद और मुद्रण	1,142	449,64	355,18	2,470	656,86	441,62
6. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	1,389	185,64	112,40	2,150	333,95	257,60
7. रबड़ और प्लास्टिक के उत्पाद	1,080	242,56	185,64	2,413	697,58	550,70
8. रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,661	597,80	419,91	5,285	2858,25	2223,87
(क) भारी औद्योगिक रसायन	180	189,75	128,75	289	495,13	355,33
(ख) उर्वरक	48	31,11	18,59	362	932,12	654,81
(ग) औषध और औषधीय उत्पाद	248	65,45	44,35	2,424	573,09	427,86
(घ) खाद्योत्तर तेल	43	7,35	5,42	71	120,75	113,79
(ङ) अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,142	304,15	222,80	2,139	737,15	672,08
9. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन	131	479,15	125,34	201	611,56	363,04
10. सीमेंट और सीमेंट उत्पादों का निर्माण	772	61,65	51,84	1,934	1844,53	1287,79
11. मूल धातुएं और धातु उत्पाद	3,793	2060,50	1564,62	5,197	8688,15	6820,56
(क) लोहा व इस्पात	752	1680,38	1330,99	830	7402,78	5714,28
(ख) अलोह धातु	282	222,96	111,67	163	649,28	558,90
(ग) अन्य धातु उत्पाद	2,759	157,17	121,96	4,204	636,08	547,38
12. अभियांत्रिकी	4,124	1360,24	848,84	8,423	1546,45	1079,60
(क) भारी अभियांत्रिकी	267	88,08	64,24	1,802	272,96	228,47
(ख) हल्की अभियांत्रिकी	2,584	912,10	528,25	3,731	595,50	339,62
(ग) विद्युत मशीनरी और सामान	893	211,80	143,68	2,084	419,25	323,97
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सामान	380	148,27	112,67	806	258,74	187,54
13. वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर	830	1476,40	619,33	3,401	1113,56	991,94
14. अन्य उद्योग	1,02,252	1309,09	904,06	1,65,270	2536,19	2167,49
15. विद्युत, गैस और जल	251	946,32	287,34	383	7725,93	6310,96
(क) विद्युत उत्पादन और प्रेषण	126	363,66	269,35	222	7293,69	5920,30
(ख) गैर परंपरागत ऊर्जा	23	19,17	7,15	45	115,78	105,52
(ग) गैस, बाष्प और जल आपूर्ति	102	563,49	10,84	116	316,46	285,15
16. निर्माण	51,112	1972,32	1414,36	13,889	3798,69	2988,60
III. परिवहन परिचालक	20,049	523,52	370,67	63,691	1388,36	1149,40
IV. व्यावसायिक तथा अन्य सेवाएं	49,762	1693,74	1194,06	2,36,039	5584,81	4646,34
V. वैयक्तिक ऋण	13,51,776	17730,57	13907,87	16,63,320	20664,45	17218,89
1. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	30,435	232,84	181,04	1,36,543	794,98	664,55
2. आवास के लिए ऋण	2,36,890	7627,64	6265,78	3,31,523	9084,42	8073,17
3. अन्य शेष वैयक्तिक ऋण	10,84,451	9870,09	7461,05	11,95,254	10785,05	8481,17
VI. व्यापार	4,18,428	6930,96	5035,23	10,50,167	20583,92	18845,56
1. थोक व्यापार	8,757	3010,28	2075,55	68,693	13401,23	12980,10
2. खुदरा व्यापार	4,09,671	3920,69	2959,68	9,81,474	7182,68	5865,46
VII. वित्त	868	217,02	103,07	23,718	2155,80	1807,53
VIII. अन्य सभी	92,977	1096,14	901,29	10,23,791	6984,66	5644,45
कुल बैंक ऋण	59,45,825	64892,83	49831,50	132,09,809	149951,49	126740,80
जिसमें से : 1. कारीगर तथा ग्रामीण और लघुतर उद्योग	90,906	1330,54	1040,88	98,765	518,38	437,74
2. अन्य लघु उद्योग	26,793	1642,69	1263,37	1,23,028	4284,55	3348,72

जनसंख्या समूह तथा बैंक समूहवार वर्गीकरण - मार्च 2007

ग्रामीण

(राशि लाख रुपयों में)

विदेशी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक			सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			मद सं.
खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
21	8,14	7,12	67,07,520	24149,74	20047,57	3,42,876	2788,47	2290,59	197,31,700	99072,83	85064,51	I
19	5,64	5,64	64,58,325	23192,28	19291,11	3,17,234	2297,46	1921,48	192,86,618	92219,88	79738,66	1
2	2,50	1,48	2,49,195	957,46	756,46	25,642	491,00	369,11	4,45,082	6852,95	5325,85	2
738	4068,29	2296,66	6,01,367	1925,90	1479,06	71,867	8923,93	7325,77	11,53,737	72082,00	54130,19	II
4	14,63	2,98	463	30,47	21,49	1,358	1067,96	824,26	7,697	3973,71	3499,28	1
38	308,58	190,48	8,926	193,78	149,85	2,074	327,69	265,13	76,011	6065,88	4342,43	2
1	79,00	79,00	4,793	96,28	69,78	1,359	43,15	36,40	48,204	1767,86	1338,46	2(क)
3	70,23	3,40	16	13,17	12,97	9	52,68	40,15	251	1472,02	953,21	2(ख)
4	8,43	8,43	464	8,10	5,86	187	21,92	18,55	2,962	263,44	202,63	2(ग)
-	-	-	7	1,29	1,38	7	7,94	8,17	278	319,18	245,82	2(घ)
-	-	-	101	4,42	3,51	38	5,48	3,09	735	119,91	85,66	2(ङ)
30	150,93	99,66	3,545	70,52	56,34	474	196,51	158,77	23,581	2123,47	1516,65	2(च)
11	446,69	188,04	88	5,59	4,81	33	7,51	2,78	752	837,58	510,65	3
72	149,22	86,94	8,207	67,73	47,38	1,367	295,66	244,17	38,393	5649,20	4332,02	4
5	6,05	51	1,551	34,95	24,71	467	160,68	125,92	7,694	3241,75	2523,87	4(क)
-	-	-	589	3,80	1,86	12	4,19	4,20	2,583	79,05	56,30	4(ख)
-	-	-	4,798	14,29	10,03	245	4,68	3,28	10,984	166,18	106,07	4(ग)
67	143,17	86,42	1,269	14,68	10,78	643	126,10	110,78	17,132	2162,21	1645,78	4(घ)
13	49,34	20,00	712	8,74	7,22	476	313,98	235,36	4,813	1478,57	1059,38	5
3	19,03	18,80	1,527	4,70	4,04	261	197,04	160,11	5,330	740,35	552,95	6
7	5,49	2,15	246	4,17	3,05	139	107,97	58,12	3,885	1057,76	799,66	7
96	826,33	560,71	3,409	14,12	12,43	290	752,76	581,98	10,741	5049,25	3798,89	8
32	159,29	90,20	9	33	22	25	347,03	252,42	535	1191,53	826,93	8(क)
4	100,00	66,92	-	-	-	9	53,37	52,49	423	1116,60	792,82	8(ख)
43	461,79	328,67	651	1,68	1,42	130	59,11	48,36	3,496	1161,11	850,66	8(ग)
-	-	-	7	42	36	12	27,28	5,16	133	155,80	124,72	8(घ)
17	105,25	74,92	2,742	11,68	10,43	114	265,97	223,55	6,154	1424,20	1203,77	8(ङ)
3	28,82	20,93	12	64	56	570	351,10	297,34	917	1471,27	807,22	9
-	-	-	236	4,47	3,81	73	26,69	25,63	3,015	1937,34	1369,07	10
135	908,49	374,71	358	6,94	5,24	211	2244,63	1966,49	9,694	13908,70	10731,62	11
74	204,83	105,38	8	29	18	61	2204,98	1933,87	1,725	11493,26	9084,71	11(क)
45	614,15	224,91	5	36	29	3	1,95	1,95	498	1488,69	897,72	11(ख)
16	89,51	44,43	345	6,29	4,76	147	37,70	30,67	7,471	926,75	749,20	11(ग)
56	558,22	341,03	905	11,71	8,54	424	340,03	266,98	13,932	3816,65	2544,99	12
7	8,99	6,21	50	2,55	2,17	28	100,91	49,08	2,154	473,49	350,17	12(क)
14	189,23	108,93	143	2,91	2,08	176	38,40	33,98	6,648	1738,14	1012,85	12(ख)
14	74,82	41,77	426	2,57	1,74	131	138,89	130,93	3,548	847,33	642,09	12(ग)
21	285,18	184,12	286	3,67	2,55	89	61,84	52,99	1,582	757,70	539,87	12(घ)
84	300,03	157,01	2,272	15,56	11,35	333	46,12	35,85	6,920	2951,67	1815,49	13
47	141,57	113,56	5,56,609	1264,07	955,18	9,771	457,55	390,88	8,33,949	5708,47	4531,16	14
-	-	-	214	7,19	5,04	1,267	1287,51	1074,91	2,115	9966,96	7678,26	15
-	-	-	9	36	28	1,245	1244,42	1035,09	1,602	8902,13	7225,01	15(क)
-	-	-	141	4,23	2,78	9	27,27	25,57	218	166,46	141,03	15(ख)
-	-	-	64	2,59	1,99	13	15,83	14,24	295	898,37	312,22	15(ग)
169	311,86	219,31	17,183	286,03	239,08	53,220	1099,74	895,78	1,35,573	7468,63	5757,13	16
8	75	46	94,141	584,60	406,80	27,967	1336,06	1255,31	2,05,856	3833,29	3182,64	III
586	1145,94	448,45	2,52,025	841,70	638,95	10,845	1150,46	675,24	5,49,257	10416,64	7603,04	IV
5,155	294,39	191,16	12,77,049	6918,93	5314,14	3,58,567	11384,63	8970,03	46,55,867	56992,98	45602,09	V
-	-	-	2,02,396	1180,77	853,37	15,533	93,75	73,40	3,84,907	2302,34	1772,36	1
171	78,49	46,58	1,45,922	1787,60	1451,23	72,331	4845,84	4186,46	7,86,837	23424,01	20023,22	2
4,984	215,90	144,58	9,28,731	3950,56	3009,54	2,70,703	6445,04	4710,17	34,84,123	31266,63	23806,51	3
441	539,15	320,98	11,51,093	3405,47	2651,91	47,853	1993,38	1590,72	26,67,982	33452,88	28444,39	VI
105	396,93	216,08	49,639	311,10	253,18	2,715	628,02	534,01	1,29,909	17747,55	16058,92	1
336	142,23	104,90	11,01,454	3094,37	2398,73	45,138	1365,36	1056,71	25,38,073	15705,33	12385,48	2
34	75,96	64,84	17,615	86,55	61,77	2,963	244,08	230,04	45,198	2779,42	2267,25	VII
2,674	163,21	73,58	7,86,364	2636,76	2101,99	1,13,498	1126,78	688,30	20,19,304	12007,56	9409,62	VIII
9,657	6295,82	3403,26	108,87,174	40549,65	32702,18	9,76,436	28947,79	23026,01	310,28,901	290637,59	235703,74	कुल
2	5	5	4,80,089	875,01	629,42	6,521	572,38	445,86	6,76,283	3296,35	2553,96	1
61	60,45	50,51	69,414	465,50	380,82	4,736	1053,85	861,36	2,24,032	7507,03	5904,77	2